



कर्ज उतारने के लिए क्रिकेटर बना लुटेरा

-मोतीझील में सात जुलाई को लूटा था पर्स

-पुलिस ने वारदात करने वाले 1 अभियुक्त को दबोचा व 1 बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया

-पर्स, मोबाइल व लूट में प्रयोग बाइक भी बरामद

-सीसीटीवी फुटेज बने मददगार, कैद हुई थी घटना

कानपुर: सात जुलाई को मां के साथ दवा लेने हैलट गई युवती का पर्स बाइक सवारों ने छीन लिया था। पुलिस ने घटना की जांच करते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों लुटेरों को दबोच लिया। अभियुक्त के पास लूटा गया पर्स, मोबाइल व वारदात में प्रयोग की गई बाइक बरामद हुई है। पुलिस दोनों अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है।

मूलरूप से अकबरपुर कानपुर देहात की रहने वाली रश्मी यादव पुत्री यशवंत सिंह यादव गोविन्द नगर कानपुर नगर में रहती है। 07 जुलाई को रश्मी अपनी माँ सरला देवी के साथ हैलट अस्पताल दवा लेने गई थीं। दोपहर लगभग 12.30 बजे वह हैलट हास्पिटल से अपनी माँ को दवा दिलाकर मोतीझील नगर निगम परिसर स्थित स्मार्ट सिटी आफिस के सामने पहुँची तभी काली मोटर साइकिल सवार दो लड़कों ने पर्स पीछे से आकर छीन लिया। पर्स में मोबाइल फोन MI कम्पनी का, 4500 रुपये, माँ का आधार कार्ड एवं मेडिकल रिपोर्ट आदि कागजात थे।

खंगाले सीसीटीवी-

घटना की सूचना पर थाना स्वरूप नगर पुलिस ने घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी चेक किये। कैमरों में कैद हुए लुटेरों की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। रविवार शाम को पुलिस ने चेकिंग के दौरान घटना करने वाले रवि कुमार(21) और बालअपचारी(16) निवासी हृदयपुर पामा थाना गजनेर कानपुर देहात को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कड़ी पूछताछ करके लूटे गये माल को बरामद कर लिया।



उधारी लौटाने को क्रिकेटर बना लुटेरा-

पूछताछ में रवि कुमार ने बताया कि वह अपने गांव हृदयपुर की क्रिकेट टीम की ओर से जगह जगह क्रिकेट खेलने जाता है, उसमें काफी पैसे खर्च होते हैं। जिस कारण से उसने कई लोगो से उधार रूपया ले रखा है, उधार चुकाने के लिये लूट की घटना अपने मित्र बालअपचारी के साथ करने लगा। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दोनों को जेल भेज दिया।

बरामदगी:-

1. एक अदद गोल्डन रंग का मोबाइल फोन MI कम्पनी का
2. एक अदद सिम जियो कम्पनी
3. 2000/- रूपये लूट के
4. लूटा गया पर्स जिसमें वादिनी मुकदमा की माँ का पैनकार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड व अन्य महत्वपूर्ण कागजात
5. प्रयोग की गयी मोटर साइकिल UP 77 Y 6632